



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BHOPAL
Saket Nagar, Bhopal (M.P.) – 462020

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस विज्ञप्ति (29 अप्रैल 2020)

1. एम्स भोपाल में कोविड.19 पर नियंत्रण हेतु माइकोबैक्टेरियम डब्ल्यू ;एम डब्ल्यू द्वाए एक प्रतिरक्षा वर्धक पर बहु आयामी अध्ययन

भारतीय औषधि महानियंत्रक एवं एम्स भोपाल की नैतिक आचार समिति के पूर्व अनुमोदन से एम्स भोपाल में कोविड.19 के चलते माइकोबैक्टेरियम डब्ल्यू ;एम डब्ल्यू की क्षमताओं एवं सुरक्षा मानकों पर अध्ययन किया जा रहा है आज इस कार्य के प्रारंभ हेतु एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें शोध कर्ताओं द्वारा पूरी टीम को मानक कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान मरीजों की सुरक्षा एवं चिकित्सा प्रक्रिया के उचित प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया इस अध्ययन से कोविड.19 के मरीजों के उपचार से संबंधित कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना है।

यह अध्ययन डॉ सरमन सिंह निदेशक एम्स भोपाल के नेतृत्व में किया जा रहा है इस शोध समिति के अन्य सदस्यों में प्रोफेसर रजनीश जोशी, प्रोफेसर देवाशीष विश्वास, डॉक्टर सौरभ सैगल तथा डॉ सागर खडंगा शामिल हैं

2. 29 अप्रैल 2020 (08:00 AM) तक कोविड-19 मरीजों की स्थिति रिपोर्ट:

वर्तमान में एम्स, भोपाल में कोविड-19 के बयालीस (42) मरीज भर्ती हैं।

एम्स, भोपाल के कोविड-19 वार्ड में कोविड-19 के तीन (03) नये मरीज भर्ती हुए हैं।

एम्स, भोपाल के कोविड-19 वार्ड में चालीस (40) कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वे क्लिनिकली स्थिर हैं।

वर्तमान में दो (02) मरीजों को कोविड-19 आई सी यू वार्ड (ICU) में भर्ती कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।

भर्ती किये गये सभी मरीजों का उपचार निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है।

छुट्टी की स्थिति/जानकारी: इस अवधी के दौरान किसी मरीज को छुट्टी नहीं दी गई है।

मृत्यु की स्थिति/जानकारी: संस्थान में अब तक कोविड-19 से संक्रमित चार मरीजों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घण्टे में किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है।

3. कोविड-19 की 28 अप्रैल (08:00 AM) से 29 अप्रैल (08:00 AM) तक की प्रयोगशाला परीक्षण की स्थिति रिपोर्ट:

कुल परीक्षण	<u>256</u>
कुल कोविड-19 पॉजिटिव (24 घण्टे)	<u>नए मामले - 13</u> <u>पुराने मामले - 02</u>
भोपाल जिला (पॉजिटिव)	<u>05</u>
अन्य जिला (पॉजिटिव)	<u>08</u>



(डॉ.लक्ष्मी प्रसाद)
अपर चिकित्सा अधीक्षक एवं
जन सम्पर्क अधिकारी